



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1934 (श0)
(सं0 पटना 377) पटना, शुक्रवार, 3 अगस्त 2012

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना

9 दिसंबर 2011

सं0 वि.प.वि.-26/2011-4023 (3) वि.प.—बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 273 (4) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में किए गए निम्नलिखित संशोधन सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं:—

संशोधन

1. नियमावली के नियम 283(ज) 1. की प्रथम पंक्ति में शब्दों एवं पूर्ण विराम “पदेन अध्यक्ष होंगे।” के पश्चात् एवं शब्दों “ब्यूरो के सदस्यों” के पूर्व निम्नवत् स्थापित हो :- “ ब्यूरो में उपाध्यक्ष का भी एक पद होगा।”
2. नियमावली के नियम 283(ज) 1. की प्रथम पंक्ति में शब्दों “ब्यूरो के” के पश्चात् एवं शब्दों “सदस्यों का” के पूर्व शब्द “उपाध्यक्ष एवं” स्थापित हो।
3. नियमावली के नियम 283(ज) 2. की प्रथम पंक्ति में शब्द “छोड़कर” के पश्चात् एवं शब्द “अधिकतम” के पूर्व शब्द “उपाध्यक्ष सहित” स्थापित हों।
4. नियमावली के नियम 283(ज) 2. की द्वितीय पंक्ति में शब्दों “ब्यूरो का” के पश्चात् एवं शब्द “सदस्य” के पूर्व निम्नवत् स्थापित हो :- “उपाध्यक्ष/”
5. नियमावली के नियम 283(ज) 3. की प्रथम पंक्ति में अंक “3” के पश्चात् एवं शब्द “अध्यक्ष” के पूर्व अंक “1” स्थापित हो।

6. नियमावली के नियम 283(ज) 3. के पश्चात् उपनियम “II” निम्नवत् स्थापित हो :- “II” ब्यूरो के उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल मनोनयन की तिथि से 5 (पांच) वर्षों का होगा।”
7. नियमावली के नियम 283 (ज) 3. में उप नियम “III” निम्नवत् स्थापित हो : “ब्यूरो में आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति सभापति नियम 283 (ज) 1. में यथाविहित रीति से करेंगे और ऐसे स्थान पर मनोनीत उपाध्यक्ष/सदस्य यथास्थिति ब्यूरो के गठन की शेष अवधि तक या नए ब्यूरो के गठन होने तक जो पहले हो, पद धारण करेंगे।”
8. नियमावली के नियम 283(ज) 4. की प्रथम पंक्ति में अंक “4” के पश्चात् एवं शब्दों “ब्यूरो का कार्यकाल” के पूर्व अंक “1” स्थापित हो।
9. नियमावली के नियम 283(ज) 4. की प्रथम पंक्ति में शब्द “सामान्यतः” के पश्चात् एवं शब्द “वर्ष” के पूर्व शब्द “एक” के स्थान पर शब्द “पांच” प्रतिस्थापित हो।
10. नियमावली के नियम 283(ज) 4. के पश्चात् उपनियम “II” निम्नवत् स्थापित हो :- “ब्यूरो का एक सचिव होगा जिसकी प्रतिनियुक्ति परिषद् के उप सचिव स्तर के ही पदाधिकारियों में से सभापति करेंगे।”

आदेश से,
प्रभात कुमार झा,
सचिव,
बिहार विधान परिषद्।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 377-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>